

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या- 82/2018

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
साजिद पुत्र मो. इब्राहीम जाति अंसारी निवासी खत्रीपुरा, नागौर। उपस्थिति :-		तहसीलदार, (राजस्व) नागौर।
1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।		
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।		

निर्णय

दिनांक: 21-05-2018

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 116/2017 सरकार बनाम साजिद में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.01.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 09.02.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

अपीलांत ने अपने अपील के समर्थन में तहसीलदार, नागौर का निर्णय दिनांक 26.12.2017 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.17 पूर्णतया विधि विरुद्ध व कानूनी तथ्यों से परे है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को बिना किसी कानून सम्मत तरीके से विवेचन व विश्लेषण कर उपरोक्त आदेश गैर कानूनी तरीके से पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)- धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में तहसीलदार द्वारा उसी स्थिति में नोटिस जारी किया जा सकता है जब कोई भी व्यक्ति, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि को अपने अधिभोग में लेता है या अधिभोग रखना जारी रखता है, अतिचारी समझा जायेगा या धारा 5 (44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की परिभाषा में अतिचारी हो लेकिन अपीलांत के मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलांत के द्वारा उपरोक्त भूमि जो कि खातेदारी भूमि है जिसे विधिवत रूप से जरिये बेचाननामा खरीद किया गया है तथा अपीलांत से संबंधित भूमि किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है तथा अपीलांत का उक्त भूमि पर विधिपूर्वक कब्जा है तथा अपीलांत किसी भी रूप में इस भूमि पर अतिचारी के रूप में काबिज नहीं है। इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 क्षेत्राधिकार से परे है तथा विधिविरुद्ध है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व तथ्यों के विवादित भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए अपीलांत को अतिक्रमी घोषित किया है जबकि पूर्व में इस भूमि पर कालू खां व उनके देहान्त के बाद में उसके वारिसान घोषित खातेदार के रूप में काबिज रहे हैं तथा अपीलांत वर्तमान में इस विवादित भूमि के कुछ हिस्से को जरिये इकरारनामा खरीद कर उस पर काबिज है तथा इस भूमि के अधिकार व हक बाबत अभी तक माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है तथा अभी तक इस भूमि को अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि घोषित नहीं किया गया है। इसलिये अपीलांत को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत अतिक्रमी घोषित करना पूर्णतया विधिविरुद्ध है क्योंकि अपीलांत धारा 91 के तहत किसी भी प्रकार से अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.17 निरस्तनीय है।

{2}(III)- माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका में खसरा नं. 568, 559, 570, 571, 578, 582, 579, 580, 581, 594, 564, 565, 583 व 626 बाबत विवाद लंबित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा



अपर कलक्टर, नागौर

केवल मात्र खसरा नं. 582 के रहवासियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया जबकि अन्य खसरान में भी घनी आबादी की बसावट है लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस दिया गया। वह विधि के समानता के अधिकार के पूर्णतया विपरीत है तथा यह भेदभावपूर्ण कार्यवाही है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

[2](IV)- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में यह वर्णित किया गया है कि अपीलांत द्वारा बिना विधिसंगत प्राधिकार प्राप्त किये माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 3854/2000 अनवान इब्राहीम खां पुत्र कालूखां वगैरा बनाम सरकार व 148/2001 अनवान सुखराम बनाम भारत सरकार में पारित यथास्थिति आदेशों के बाद अवैध निर्माण कार्य कर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की अवहेलना की है। जबकि यह स्पष्ट है कि अपीलांत किसी भी रूप में उपरोक्त याचिका में पक्षकार नहीं है तथा अपीलांत संबंधित भूमि का सदभाविक क्रेता है। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भूलवश अनुपालना नहीं हुई है तो इसके लिये किसी भी प्रकार से धारा 91 का नोटिस विधिसम्मत नहीं है तथा संबंधित पक्षकार द्वारा इसके लिये माननीय उच्च न्यायालय में चाराज्योही की जा सकती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभी तक उपरोक्त भूमि के मालिकाना हक बाबत माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम निर्णय आना बाकी है तो इस स्थिति में यह कतई साबित नहीं है कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से सरकार का अधिकार है तथा उपरोक्त भूमि जिसके आधिपत्य बाबत विवाद सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उस स्थिति में उस भूमि के संबंध में अतिचार का आरोप लगाकर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस अतिचारी के रूप में जारी करना कतई विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि धारा 91 का नोटिस केवल एवं केवल ऐसी भूमि जो कि पूर्णतया सरकारी भूमि है तथा जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अधिभोग में लेता है तो ही जारी किया जा सकता है लेकिन इस प्रकरण में अभी तक इस भूमि के स्वामित्व के बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जहां कि किसी भी भूमि के स्वामित्व बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं हो तथा अपीलांत के द्वारा उस भूमि बाबत अपना सदभावी अधिकार साबित किया हो वहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्रीमती पदमावती देवी (मृतक जरिये उत्तराधिकारी व अन्य) Reported in 1995 DNJ (SC) 2008 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि Section 91 of the Act prescribes a summary procedure for eviction of a person who is found to be in unauthorised occupation of Government land. The said provisions cannot be invoked in a case where the person in occupation raises bona fide dispute about his right to remain in occupation over the land The provisions resorted to by the Government only against persons who are in unauthorised occupation of any land which is the property of the Government and if the person in occupation has a bona fide claim to litigate he could not be ejected save by the due process of law and that the summary remedy prescribed under Land Revenue Act was not the kind of legal process which is suited to an adjudication of complicated questions of title.

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए यह स्पष्ट है कि अपीलांत के प्रकरण में अपीलांत विवादित भूमि पर सदभावी क्रेता के रूप में काबिज है तथा इसके अलावा जिस भूमि के बाबत विवाद है उसके स्वामित्व के बाबत विभिन्न दस्तावेजों से संबंधित विवाद लम्बित है तथा इसमें इन दस्तावेजों के संबंध में विभिन्न प्रकार के कानूनों के लागू होने बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय करना शेष है, इन परिस्थितियों में उपरोक्त भूमि के कब्जे व स्वामित्व के बाबत सारांश कार्यवाही (Summary Proceeding) जो कि धारा 91 के तहत होती है, के द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार से इन तथ्यों की विवेचना व विश्लेषण किये, कानून से परे निर्णय दिनांक 26.12.17 के द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया है। वह पूर्णतया विधिविरुद्ध है तथा निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे(एससी) 1995 पेज 208 से 210 नजीरे पेश की है।

[3]- राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांत द्वारा नागौर में स्थित राजकीय बरानी-4 कस्टोडियन भूमि पर अतिक्रमण कर बाड़ा बना लिए जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को नोटिस जारी किया गया। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन बरानी-4 है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिए।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 582 रकबा 25x50 वर्गफुट गैर मुमकिन बरानी-4 राजकीय कस्टोडियन भूमि पर बाड़ा का निर्माण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व



अपर कलेक्टर, नागौर

अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय का उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाना रिकार्ड से पाया जाता है। जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि उक्त भूमि के स्वामित्व को लेकर याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, के तथ्यों को रेस्पोंडेंट द्वारा भी स्वीकार भी किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलांट की भौतिक रूप से बेदखली भी स्थगित रखी हुई है। जहां प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है, वहां इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने पर तदनुसार कार्यवाही/पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्वतः ही उत्तरदायी है। वर्तमान स्थिति में आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटि रही हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन बारानी-4 राजकीय कस्टोडियन भूमि है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं उसमें पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए ही समुचित कार्यवाही की जावे।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर